

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 मई 2025—वैशाख 19, शक 1947

## भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कुछ नहीं.